

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४२] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी ७, १९६८/माघ १८, १८८९

No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 1968/MAGHA 18, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February 1968

S.O. 574/IDRA/29B/68.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder, all industrial undertakings pertaining to such of the industries specified in the First Schedule to the said Act as are mentioned below, namely:

Any industry engaged in the manufacture or production of—

Wheeled agricultural tractors and power tillers falling under entry '(1) Tractors, harvestors and the like' under the heading '10. AGRICULTURAL MACHINERY'.

[No. 6(1)/Lic. Pol./68.]

R. V. SUBRAHMANYAN, Jt. Secy.

